



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 28—फरवरी 3, 2018, शनिवार/माघ 8—माघ 14, 1939

No. 2] NEW DELHI, JANUARY 28—FEBRUARY 3, 2018, SATURDAY/MAGHA 8—MAGHA 14, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 2.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (अग्निशमन) पद भर्ती नियम, 1998, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, में समूह 'ग' (अग्निशमन) पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (फायर इंजन ड्राइवर 'क', फायर इंजन ड्राइवर 'ख' और फायर इंजन ड्राइवर 'ग') पद, भर्ती नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.—**ये नियम इन नियमों में उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखाबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
फायर इंजन ड्राइवर 'ग'	30* (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय अनौद्योगिक।

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ।
(4)	(5)	(6)	(7)
स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे फायर इंजन ड्राइवर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो या फायर इंजन ड्राइवर 'ख' और फायर इंजन ड्राइवर 'क' में तेरह वर्ष की संयुक्त सेवा की हो और फायर टेंडर के संचालन, रखरखाव और छोटी मोटी मरम्मत पर निर्धारित परीक्षण को उत्तीर्ण किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हकता पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना बताएं।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

समूह 'ग' प्रोन्नति पर विचार के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति-II जिसमें शामिल हैं:—

आवश्यक नहीं है।

1. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं के निदेशक या प्रधान **-अध्यक्ष**
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-I या वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह के किसी घटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है **-सदस्य**
3. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-II **-सदस्य**

(1)	(2)	(3)
2. फायर इंजन ड्राइवर 'ख'	25* (2017) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय अनौद्योगिक

(4)	(5)	(6)	(7)
स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2 में ऐसे फायर इंजन ड्राइवर 'क' जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और छोटी मोटी मरम्मत सहित फायर टेंडर ऑपरेशन और रखरखाव से संबंधित निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति-II (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन या स्थापना या प्रयोगशाला का निदेशक या प्रधान - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-I अथवा वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह के किसी घटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है - सदस्य 3. संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाली स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-II - सदस्य 	<p>आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
3. फायर इंजन ड्राइवर 'क'	25* (2017) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय अनौद्योगिक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2

(5)	(6)	(7)
अचयन पद	<p>18-27 वर्षों के बीच (समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>नोट : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारतीय अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू का लद्दाख डिवीजन तथा</p>	<p>अनिवार्य</p> <ol style="list-style-type: none"> i. मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं पास ii. दो अथवा तीन पहिए और हल्के तथा भारी वाहनों के लिए विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक, तथा iii. यातायात विनियमों की जानकारी iv. शारीरिक स्वस्थता और श्रमसाध्य कर्तव्य करने की क्षमता।

कश्मीर राज्य, लाहोल तथा स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उपखंड लक्ष्यद्वीप का अण्डमान तथा निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	नोट : सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन की किसी भी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी की राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थी के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष नोट : उनको अपने स्थायीकरण से पहले अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र द्वारा आयोजित होने वाले अग्निशमन के सामान्य पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा।	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति-II :- (प्रोन्नति तथा स्थायीकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला की विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह का आयोजन करने के लिए नामित रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन या प्रयोगशाला या स्थापना के निदेशक या प्रमुख -अध्यक्ष 2. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II या वैज्ञानिक 'बी' -सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-I या वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह के किसी घटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/आरआर/एफईडी/सी/पी/01/2319/रक्षा (अनु. एवं वि.)/17]

हर्षा रानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 28th December, 2017

S.R.O. 2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' and Group 'D' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Group 'C' (Fire Service) posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Fire Engine Driver 'A', Fire Engine Driver 'B' and Fire Engine Driver 'C') posts, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
4. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc..**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Disqualifications.** - No person, —
- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Fire Engine Driver 'C'	30* (2017)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Level-5(Rs.29200-92300)

Whether selection post or Non-selection post	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Non- Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
Promotion: Fire Engine Driver 'B' post in Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years regular service in the grade or with a combined service of thirteen years in Fire Engine Driver 'B' and Fire Engine Driver 'A' and have passed the prescribed test on operation, maintenance and minor repairs of fire tenders.
Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee-II for considering promotion consisting of: 1. Director or Head of the one of the Defence Research and Development Organisation or Establishments or Laboratories. —Chairman 2. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratories of the respective Departmental Promotion Committee-II Group. —Member 3. Senior Administrative Officer Grade-II from the participating Establishments or Laboratories in the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group. —Member	Not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Fire Engine Driver 'B'	25* (2017)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Level-4 (Rs.25500-81100)

(5)	(6)	(7)
Non- Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By Promotion

(11)
Promotion: - Fire Engine Driver 'A' in Level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade and have passed the prescribed test related to fire tender operation and maintenance including minor repairs. Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee-II (for promotion) consisting of : 1. Director or Head of the one of the Defence Research and Development Organisation or Establishments or Laboratories —Chairman 2. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratories of the respective Departmental Promotion Committee-II Group. —Member 3. Senior Administrative Officer Grade-II from the participating Establishments or Laboratories in the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group. —Member	Not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Fire Engine Drive 'A'	25*(2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted. Non-Ministerial Non-Industrial,	Level-2 in the pay matrix

(5)	(6)	(7)
Non-selection post.	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep).	Essential: (i) Pass in 10 th standard from a recognised board. (ii) Possession of a valid driving licence for two or three wheelers and light and heavy vehicles, and (iii) Knowledge of Traffic regulations. (iv) Physical fitness and capability for strenuous duties. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years Note:- They will have to complete the General Course in Fire Fighting conducted by Centre for Fire, Explosives and Environment Safety successfully before their confirmation	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee-II:— (For promotion and confirmation) consisting of :- 1. Director or Head of the Defence Research and Development Organisation Laboratory or Establishment nominated for conducting the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group. —Chairman 2. Senior Administrative Officer Grade-II or Scientist 'B' from the participating Laboratories or Establishments in the respective decentralised Departmental Promotion Committee-II Group. —Member 3. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory of the Departmental Promotion Committee-II Group. —Member	Not applicable.

[F. No. DHRD/76257/RRs/FEDs /C/P/01/2319/D (R&D)/17]

HARSHA RANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

का.नि.आ. 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय वायुसेना, (आशुलिपिक श्रेणी-III) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना में आशुलिपिक श्रेणी-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना (आशुलिपिक श्रेणी II) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
आशुलिपिक श्रेणी-II	88* (2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-4 (रु. 25500- रु. 81100)
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास या समतुल्य (ii) कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेख:

नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से।
टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लिप्यांतरण: कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. प्रधान निदेशक कार्मिक सिविलियन, वायुसेना मुख्यालय - अध्यक्ष 2. उप निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक की श्रेणी से अन्यून, कार्मिक सिविलियन निदेशालय के सिवाय किसी अन्य निदेशालय का प्रतिनिधि, वायुसेना मुख्यालय - सदस्य 3. संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक कार्मिक सिविलियन (विभागीय प्रोन्नति समिति अनुभाग), वायुसेना मुख्यालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. वा. से. मु./23049/भ. नि./आशु. II/पी.सी.(आर आर और खेलकूद)/27/र. (नि.)/2018]

एस. एस. एस. सर्मा, निदेशक (स्थापना एवं सिविलियन कार्मिक)

New Delhi, the 18th January, 2018

S.R.O. 3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Air Force (Stenographer Grade III) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II in the Indian Air Force, namely,—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Air Force (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or Non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stenographer Grade-II	88* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial	Level-4 (Rs 25500 –Rs 81100)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Sub Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: In respect of posts, the appointment to which is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	(i) 12th pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Skill Test Norms Dictation: 10 mts @ 80 words per minute. Transcription: 50 minutes(Eng), 65 minutes (Hindi) on computer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Principal Director Personnel Civilians, Air Headquarters - Chairperson (2) Representative of a Directorate, other than Directorate of Personnel Civilians, not below the grade of Deputy Director or Joint Director, Air Headquarters - Member (3) Joint Director or Deputy Director Personnel Civilians (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters - Member	Not applicable.

[F. No. Air HQ/23049/Steno-II/PC-RRs & Sports/27/D (Appts) /2018]

S.S.S. SARMA, Director (Estt. & CP)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

का.नि.आ. 4.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 31) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 के नियम 28 के उपनियम (2) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ट) राष्ट्रीय कैडेट कोर के ऐसे कैडेट, जिनकी उपस्थिति किसी प्रशिक्षण वर्ष में पचास प्रतिशत से कम है।”

[फा. सं. 7501/सा./एन.सी.सी.मु./एमएस (बी)]

समित दत्ता गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-1, खंड III में, अधिसूचना सं. का.नि.आ. 289, 19 फरवरी, 1949 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का. नि.आ. 18, तारीख, 2 मई, 2016 द्वारा किया गया था।

New Delhi, the 22nd January, 2018

S.R.O. 4.—In exercise of powers conferred by section 13 of the National Cadet Corps Act, 1948 (Act XXXI of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Cadet Corps Rules, 1948, namely :-

- Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the National Cadet corps (Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Cadet Corps Rules, 1948, in rule 28, in sub-rule (2), after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-

“(k) the National Cadet Corps cadets whose attendance is less than fifty percent in a training year.”

[F. No. 7501/Gen/NCC HQ/ MS(B)]

SAMIT DATTA GUPTA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part I, Section 3, vide notification number S.R.O. 289, dated the 19th February, 1949 and last amended vide notification number S.R.O. 18, dated, the 02nd May, 2016.

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

का.नि.आ. 5.—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 31) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर (छात्रा प्रभाग) नियम, 1949 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर (छात्रा प्रभाग) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम (छात्रा प्रभाग) 1949 के नियम 26 के उपनियम (2) में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ज) किसी प्रशिक्षण वर्ष में उसकी उपस्थिति पचास प्रतिशत से कम है।”

[फा. सं. 7501/सा./एन.सी.सी.मु./एमएस (बी)]

समित दत्ता गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-1, खंड III में, अधिसूचना सं. का.नि.आ. 451, तारीख 18 मार्च, 1950 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का. नि.आ. 19, तारीख, 2 मई, 2016 द्वारा किया गया था।

New Delhi, the 22nd January, 2018

S.R.O. 5.—In exercise of powers conferred by section 13 of the National Cadet Corps Act, 1948 (Act XXXI of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Cadet Corps (Girls Division) Rules, 1949, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Cadet Corps (Girls Division) (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Cadet Corps (Girls Division) Rules, 1949, in rule 26, in sub-rule (2), after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :-

“(h) that, her attendance is less than fifty percent in a training year.”

[F. No.7501/Gen/NCC HQ/ MS(B)]

SAMIT DATTA GUPTA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part I Section 3, vide notification number S.R.O. 451, dated the 18th March, 1950 and last amended vide notification number S.R.O. 19, dated, the 02nd May, 2016.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

का.नि.आ. 6.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, वायु सेना मुख्यालय, आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु सेना) में आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु सेना) आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति,-

क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।
(1)	(2)	(3)	(4)
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'ख'	10* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	स्तर- 5 (29200-92300 रु.)

चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	<p>18 से 25 वर्ष के बीच।</p> <p>[केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 वर्ष तक) शिथिल की जा सकती है।]</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में बैचलर डिग्री;</p> <p>(ii) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए प्रति घंटा कम से कम 15000 कुंजी अवनमन की गति, कम्प्यूटर पर गति परीक्षण के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार/कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप निदेशक, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 2. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु सेना) से उप निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति का अधिकारी - सदस्य 3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, (रक्षा मंत्रालय के स्थापना खंड द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।) - सदस्य	लागू नहीं होता।

जीतेन्द्र कुमार, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

S.R.O. 6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Air Headquarters Data Entry Operator Grade ‘B’ (Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade ‘B’ in the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Air), Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Air) Data Entry Operator Grade 'B' (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data Entry Operator Grade 'B'	10* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (₹ 29200-92300)	Not applicable

Age-limit for direct recruits
(6)
Between 18 and 25 years. [Relaxable upto 40 years (upto 45 years in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates) in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.] Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	
(7)	
(i)	Bachelor's degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognised University or Institute;
(ii)	A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer.
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in case of candidates, otherwise well qualified.	
Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in level-4 in the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7."

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group `C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Director, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence -Chairman 2. Officer of the status of Deputy Director or equivalent from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Air) -Member 3. Under Secretary, Ministry of Defence (to be nominated by Establishment Division, Ministry of Defence) -Member	Not applicable.

[F. No. A/34020/CAO/R-II]

JITENDRA KUMAR, Dy. Chief Administrative Officer

(FINANCE DIVISION)**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 16th January, 2018

S.R.O. 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Recruitment Rules to the posts of Senior Accounts Officer in the Defence Accounts Department, 2009.

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. SRO NO. 54

In Column No.3 of the schedule

For

“General Central Service Group “B” Non-Gazetted, Ministerial”

Read

“General Central Service Group “B” Gazetted, Non-Ministerial”

[F. No. F 9(1)/C/2006]

R. K. KARNA, Jt. Secy. & Addl. FA

Note: The principal rules dated 6th June, 2008 was published in Gazette of India, Part-II, Section 4 vide number S.R.O. 54 on the 21st day of June, 2008.